

**\*@shahjahanpurpol\***

**\*प्रेस नोट:- 31.08.2021\***

**\*मिशन शक्ति तृतीय चरण\***

**\*शाहजहांपुर पुलिस द्वारा गाँव – गाँव, मोहल्लो में चौपाल लगाकर महिलाओं/छात्राओं को सशक्त\*,  
\*स्वावलम्बी व आत्म रक्षा के प्रति जागरूक, सुरक्षा के प्रति दिया भरोसा।\***

श्री एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा श्री संजीव कुमार अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व श्री संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षकों/थाना प्रभारियों, थानों पर नियुक्त महिला बीट आरक्षियों सहित एन्टी रोमियों स्क्वाड को अपने अपने थाना क्षेत्रों में बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को महिला अपराधों के प्रति जागरूक एवं महिला सशक्तिकरण हेतु मिशनशक्ति अभियान-3 के अंतर्गत सशक्त, स्वावलम्बी व आत्म रक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु दिशा निर्देश दिये गये।

मिशन शक्ति अभियान-3 के अन्तर्गत आज दिनांक 31.08.21 को जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा गांव - गांव एवं मोहल्लों में चौपाल लगाकर, स्कूल कालेजों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को स्वावलम्बी, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति, जनजागरूकता, आत्मरक्षा की कला पैदा करने के लिए , महिला हेल्पलाइन-1090, यूपी-112, 181 तथा कानून की धाराएं जैसे-बाल संरक्षण अधिनियम, छेड़छाड़, गुड टच – बेड टच आदि एवं उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देकर जागरूक करने के साथ साथ \*बालकों/नवयुवकों आदि के साथ मीटिंग कर अपराधों से दूर रहने तथा अपने आसपास तथा समाज में स्वच्छ वातावरण बनाने हेतु प्रेरित किया गया तथा अपने गांव की महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा के संबंध में अवगत कराते हुए उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तय करते हुये बताया गया कि आपके आस पास यदि कोई अपराध में संलिप्त है या बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं से छेड़खानी करता है तो अपने परिवार में अवश्य बताये तथा बताये गये नम्बरों पर सूचना दे।\*

महिलाओं एवं बालिकाओं से उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी की गयी तथा महिला सशक्तिकरण एवं महिला अपराधों एवं उत्तरप्रदेश पुलिस द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है तथा एन्टी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर चैकिंग के दौरान शोहदों एवं बेवजह घूम रहे लोगों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा रही है ताकि भविष्य में दुबारा ना करे।

\*जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा मिशनशक्ति के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराने हेतु निरन्तर कार्य किया जा रहा है।\*

